



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1944 (श0)
(सं0 पटना 378) पटना, मंगलवार, 21 जून 2022

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

17 जून 2022

सं० 02/एम0एम0-(बा0)-11/22-2807/एम0—राज्यान्तर्गत सभी जिलों के लिए नए सिरे से जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने एवं अवैध खनन न हो इसके लिए राज्य में बिहार राज्य खनन निगम द्वारा नियुक्त संवेदक के माध्यम से ही अगले आदेश तक बालू खनन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-3661-3662/2020 में दिनांक 10.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में दी गई थी।

2 अनुमण्डलीय समिति द्वारा तैयार जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार (SEIAA) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2022 को पारित आदेश में राज्य को अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए निविदा प्रकाशित करने को कहा है।

3. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित बालूघाटों की अगले 05 वर्ष के लिए बंदोबस्ती समाहर्ता द्वारा ई-नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है। निविदा हेतु सुरक्षित जमा की राशि वर्ष 2021 में प्राप्त राजस्व पर 50 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित की जायेगी।

4. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खॉं,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 378-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>